

अधिसूचित वाणिज्य बैंकों के पास जमाराशियों की संरचना और स्वामित्व का स्वरूप : मार्च 2014*

लेख में 2007-2014 के दौरान अधिसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के पास बकाया जमाओं की संरचना और स्वामित्व के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। 2007-10 की अवधि से वार्षिक नमूना सर्वेक्षण से जमाओं के स्वामित्व के स्वरूप के संबंध में अनुमानित रूप से लिए गए आंकड़ों का उपयोग मार्च 2012-2014¹ से संग्रह किए गए वार्षिक जनगणना सर्वेक्षण के आंकड़ों के साथ किया गया है। विश्लेषण में, पिछले कुछ वर्षों में जमा खातों के प्रकार, संस्थागत क्षेत्रों, जनसंख्या समूहों एवं बैंक समूहों में व्यापक चलन को दर्शाया गया है।

प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बुनियादी सांख्यिकीय विवरण (बीएसआर)-4 प्रणाली के जरिए 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार अधिसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबीज) के पास बैंक जमाओं की संरचना और स्वामित्व के स्वरूप के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबीज) के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के तहत संग्रह किए गए आंकड़ों को बैंक की वेबसाइट पर फरवरी 2015 में ‘डेटा रिलीज’ (http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=33283) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है।

2. यह आंकड़ा, जमाओं के प्रकार (यथा, चालू, बचत एवं मीयादी जमाओं) और जमाकर्ताओं की संस्थागत श्रेणियों (अर्थात् हाउसहोल्ड, सरकारी, निजी कॉरपोरेट, गैर-वित्तीय, वित्तीय और विदेशी) के आधार पर 31 मार्च की स्थिति के अनुसार शाखा-वार बकाया जमाएं उपलब्ध कराता है। यह आंकड़ा विभिन्न राज्यों, जनसंख्या समूहों और प्रमुख बैंक समूहों (सरकारी क्षेत्र के बैंक,

* भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई, सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग के बैंक शाखा सांख्यिकी प्रभाग में तैयार किया गया।

¹ मार्च 2014 के लिए अधिक विस्तृत डेटा भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट 'URL:<http://www.rbi.org.in/>' पर उपलब्ध है। अधिसूचित वाणिज्य बैंकों के पास जमाराशियों की संरचना एवं स्वामित्व के स्वरूप के संबंध में बीएसआर-4 सर्वेक्षण से निकले पूर्व के निष्कर्ष भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के विभिन्न अंकों में प्रकाशित किए गए थे; नवीनतम निष्कर्ष अप्रैल 2014 अंक में प्रकाशित किया गया था।

निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक) में चलन के विश्लेषण में काम आता है।


3. यह लेख 2014 के सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित है और जमा खाता प्रकार (चालू, बचत एवं मीयादी जमाओं) के चलन और स्वरूप की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करता है। व्यापक संस्थागत क्षेत्रों के आधार पर जमाओं के स्वामित्व के स्वरूप के संबंध में चर्चा के बाद जनसंख्या समूहों के अनुसार जमाओं के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई। तदनुसार, विभिन्न संस्थागत जमाकर्ताओं की प्राथमिकता के संबंध में बैंक-समूह वार विश्लेषण पर चर्चा की गई। लेख के अंतिम भाग में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार बैंक जमाओं के राज्य-वार स्वरूप के संबंध में संक्षिप्त जानकारी भी दी गई है।

जमाओं के प्रकार के अनुसार बैंक जमाओं की संरचना

4. मीयादी जमा सबसे बड़ा घटक रहा और इस क्रम में बचत जमा दूसरा बड़ा घटक है। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कुल जमाओं में मीयादी जमाओं का लगभग दो-तिहाई हिस्सा था और बचत जमाओं का लगभग एक-चौथाई हिस्सा था (चार्ट 1)।

5. 2013-14 के दौरान कुल जमाओं में मीयादी और बचत जमाओं का हिस्सा बढ़ते चलन को दर्शाता है, जबकि इस अवधि में चालू जमाओं का हिस्सा घटता चलन दर्शाता है।

चार्ट 1: जमाराशि के प्रकार के अनुसार बैंक जमाराशियों की संरचना की प्रवृत्ति - 2008-2014
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)



सारणी 1: खाता प्रकार के अनुसार जमाराशियों की प्रवृत्ति

(बिलियन ₹ में बकाया राशि; प्रतिशत में वृद्धि)

खाता के प्रकार/31 मार्च की स्थिति के अनुसार	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014
चालू जमाराशियां	3,357 (17.8)	4,492 (33.8)	4,865 (8.3)	5,788 (19.0)	6,950 (9.6)	7,060 (1.6)	7,231 (2.4)
बचत जमाराशियां	6,709 (17.5)	7,858 (17.1)	9,396 (19.6)	12,312 (31.0)	16,356 (15.3)	18,344 (12.2)	21,323 (16.2)
मीयादी जमाराशियां	16,933 (29.8)	20,836 (23.0)	26,136 (25.4)	30,263 (15.8)	40,803 (16.1)	46,063 (12.9)	52,757 (14.5)
कुल जमाराशियां ^(**)	26,999 (24.9)	33,186 (22.9)	40,397 (21.7)	48,364 (19.7)	64,110 (15.1)	71,466 (11.5)	81,310 (13.8)
मेंगो मर्दे (% में):							
मीयादी (>1 वर्ष) जमा दरें	7.50-9.00	8.25-9.00	7.75-8.75	6.00-7.50	8.50-9.25	7.50-9.00	8.00-9.25
नामिनल जीडीपी में वृद्धि	16.3	16.1	12.9	15.1	15.7	11.2	12.3
आईआईपी में वृद्धि	12.9	15.5	2.5	5.3	2.9	1.1	-0.1
बीएसई 100 में वृद्धि	42.5	39.2	-26.0	-26.2	-7.5	5.0	8.3
स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि	33.9	8.2	29.0	22.2	33.8	17.3	-3.2

**: जमाराशियों में अंतर-बैंक जमाएं शामिल हैं।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वार्षिक वृद्धि दरों को दर्शाते हैं।

2. स्वर्ण के मूल्य मूंबर्ड में आईएनआर में है।

3. स्टैटीफाइट सैम्पलिंग पद्धति पर आधारित मार्च 2011 के अनुमान, गत वर्ष के अनुमानों के साथ-साथ मार्च 2012 से प्राप्त जनगणना डेटा के अनुसार नहीं हैं एवं इसलिए वर्तमान अध्ययन में विचार नहीं किया गया है। इसलिए सभी मर्दे हेतु 2012 के लिए वृद्धि दरों को 2010 की संयोजित वार्षिक वृद्धि दरों के रूप में परिकलित किया गया है।

4. मीयादी जमा दरें प्रमुख बैंकों से प्राप्त दरों के अनुसार हैं (स्रोत: साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, आरबीआई)।

5. जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्यों के अनुसार है।


6. कुल जमाओं में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, जिसमें मार्च 2013 तक गिरावट आई, मार्च 2014 में कुछ बेहतर हुई (सारणी 1), जो प्रमुख रूप से ब्याज धारिता जमाओं (अर्थात् बचत एवं मीयादी) में बढ़ोतरी के कारण हुई। आर्थिक माहौल में मंदी के परिणामस्वरूप चालू जमाओं में गत दो वर्षों में निम्नतर वृद्धि हुई जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नतर/ ऋणात्मक वृद्धि दर्शाती है।

व्यापक संस्थागत क्षेत्रों के अनुसार जमाओं के स्वामित्व का स्वरूप

7. पूरी समीक्षाधीन अवधि में अधिसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संचित जमाओं में हाउसहोल्ड क्षेत्र² का हिस्सा सर्वाधिक था (चार्ट 2)। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, कुल जमाओं में हाउसहोल्ड क्षेत्र का हिस्सा 59.7 प्रतिशत था और उसके बाद सरकारी क्षेत्र का

हिस्सा 14 प्रतिशत था। 2013-14 के दौरान, विदेशी क्षेत्र की जमाओं के हिस्से में भी वृद्धि हुई, जो प्रमुख रूप से अनिवासी

**चार्ट 2: बैंक जमाराशियों के स्वामित्व के स्वरूप की प्रवृत्ति - 2008-2014
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)**



² हाउसहोल्ड क्षेत्र में व्यक्तियों के साथ-साथ अनिवासी निकाय शामिल हैं।

जमाओं में भारी वृद्धि के कारण थी। यह वृद्धि 2013-14 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी जमा खाता के संबंध में घोषित नीतिगत परिवर्तन के कारण हो सकती है।

8. कुल जमाओं में हाउसहोल्ड का हिस्सा, जो 2008-2012 के दौरान लगभग 58 प्रतिशत था, 2013 में बढ़कर 59.6 प्रतिशत हो गया और 2014 में उसी स्तर पर रहा (सारणी 2)। सारणी 1 में उल्लेख किए गए अनुसार, 2013-14 के दौरान, बैंक की मीयादी जमा दरें, हाउसहोल्ड को उपलब्ध निवेश के अन्य स्रोतों (अर्थात् स्टॉक मार्केट एवं स्वर्ण/चाँदी) की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धात्मक

रहीं। हाउसहोल्ड के अंतर्गत, व्यक्ति विशेष³ का कुल हाउसहोल्ड जमाओं में सर्वाधिक अर्थात् लगभग 83⁴ प्रतिशत हिस्सा था। स्वामित्व एवं भागीदारी फर्म (4.7-6.3 प्रतिशत) और न्यास एवं संघ (3.5-4.6 प्रतिशत) 2008-2014 के दौरान हाउसहोल्ड जमाओं के अन्य घटक थे। (विस्तृत आंकड़ों के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट <http://www.rbi.org.in/> देखें।)

9. विभिन्न संस्थागत क्षेत्रों के आधार पर जमाओं में वृद्धि सारणी 2 में उपलब्ध है। बैंकों के पास गैर-वित्तीय निजी कॉरपोरेट क्षेत्रों की जमा लगातार दूसरे वर्ष घटी।

सारणी 2: प्रमुख संस्थागत क्षेत्रों के अनुसार कुल जमाराशियां

(बिलियन ₹ में राशि; प्रतिशत में वृद्धि)

प्रमुख संस्थागत क्षेत्र	मार्च-07	मार्च-08	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14
I. सरकारी क्षेत्र	3,907 (25.2)	4,478 (14.6)	5,652 (26.2)	6,551 (15.9)	9,361 (19.5)	9,912 (5.9)	11,402 (15.0)
जिनमें से, केन्द्र और राज्य सरकार	1,301 (26.1)	1,786 (37.3)	2,354 (31.9)	3,068 (30.3)	4,565 (22.0)	5,329 (16.7)	5,596 (5.0)
सरकारी क्षेत्र के निगम	1,238 (19.6)	1,314 (6.2)	1,879 (43.0)	1,879 (0.0)	3,017 (26.7)	2,726 (-9.6)	3,735 (37.0)
II. निजी कॉरपोरेट क्षेत्र (गैर-वित्तीय)	3,035 (39.1)	4,322 (42.4)	5,867 (35.7)	7,137 (21.6)	9,384 (14.7)	8,875 (-5.4)	8,065 (-9.1)
जिनमें से, गैर-वित्तीय कंपनियां	2,478 (35.0)	3,293 (32.9)	4,862 (47.7)	5,191 (6.8)	6,210 (9.4)	6,237 (0.4)	5,935 (-4.8)
III. वित्त क्षेत्र	2,825 (34.6)	3,429 (21.4)	3,580 (4.4)	4,820 (34.7)	6,019 (11.7)	7,150 (18.8)	7,928 (10.9)
जिनमें से, बैंक	1,123 (44.7)	1,191 (6.1)	1,578 (32.5)	2,348 (48.8)	2,652 (6.3)	2,939 (10.8)	3,736 (27.1)
अन्य वित्तीय संस्थाएं	1,181 (28.1)	1,306 (10.6)	1,085 (-16.9)	1,346 (24.0)	1,548 (7.2)	1,662 (7.4)	2,136 (28.5)
अन्य वित्तीय कंपनियां	521 (30.2)	932 (79.0)	916 (-1.7)	1,127 (23.0)	1,819 (27.1)	2,549 (40.1)	2,056 (-19.3)
IV. हाउसहोल्ड क्षेत्र	15,497 (22.6)	19,280 (24.4)	23,552 (22.2)	28,049 (19.1)	37,249 (15.2)	42,568 (14.3)	48,567 (14.1)
जिनमें से, व्यक्ति (हिंदू अविभाजित परिवार सहित)	12,018 (18.5)	14,954 (24.4)	18,732 (25.3)	21,843 (16.6)	28,660 (14.5)	33,314 (16.2)	40,468 (21.5)
जिनमें से, किसान	1,724 (13.2)	1,772 (2.8)	1,758 (-0.8)	2,118 (20.5)	2,000 (-2.8)	2,977 (48.8)	3,008 (1.0)
V. विदेशी क्षेत्र	1,736 (10.8)	1,677 (-3.4)	1,747 (4.2)	1,807 (3.4)	2,097 (7.7)	2,960 (41.2)	5,348 (80.7)
जिनमें से, अनिवासी	1,494 (7.6)	1,395 (-6.7)	1,558 (11.7)	1,605 (3.0)	1,951 (10.2)	2,811 (44.1)	5,013 (78.3)
कुल जमाएं	26,999 (24.9)	33,186 (22.9)	40,397 (21.7)	48,364 (19.7)	64,110 (15.1)	71,466 (11.5)	81,310 (13.8)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वार्षिक वृद्धि दरों को दर्शाते हैं। मार्च 2011 के अनुमान का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि ये अनुमान मार्च 2012 के जनगणना आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाते। 2012 की वृद्धि दरें 2010 की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दरों (सीएजीआर) को दर्शाते हैं।

³ व्यक्ति जिसमें हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) शामिल है।

⁴ वर्गीकरण में सुधार होने के साथ कतिपय पारिवारिक जमाराशियों, जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है, को अब 'वेतन एवं मजदूरों' और 'अन्य व्यक्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सारणी 3: विभिन्न प्रकार की जमाराशियों का संस्थागत स्वामित्व

(प्रतिशत)

जमाराशि क्षेत्रों के प्रकार/वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	चालू		बचत		मीयादी		कुल	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
I. सरकारी क्षेत्र	17.0	15.2	9.8	10.4	15.0	15.3	13.9	14.0
II. निजी कॉरपोरेट क्षेत्र (गैर-वित्तीय)	28.8	27.6	1.0	0.6	14.4	11.3	12.4	9.9
III. वित्तीय क्षेत्र	11.8	11.8	0.4	0.3	13.5	13.3	10.0	9.8
IV. हाउसहोल्ड क्षेत्र	40.8	42.1	84.8	83.6	52.4	52.5	59.6	59.7
V. विदेशी क्षेत्र	1.6	3.3	4.0	5.1	4.6	7.6	4.1	6.6
कुल जमाराशियां	100.0							

10. भिन्न प्रकार की जमाओं का संस्थागत स्वामित्व इंगित करता है कि 2014 में हाउसहोल्ड, जिसका अधिसूचित वाणिज्य बैंकों के पास बकाया कुल जमाओं में सर्वाधिक धारिता थी, का सभी तीनों प्रकार की जमाओं, नामतः, चालू, बचत एवं मीयादी जमाओं, में भी सर्वाधिक हिस्सा था (सारणी 3)। लगभग 84 प्रतिशत बचत जमाएं, 50 प्रतिशत से अधिक मीयादी जमाएं और 40 प्रतिशत से अधिक चालू जमाएं हाउसहोल्ड द्वारा धारण किए हुए हैं। 2014 में, चालू जमाओं में, गैर-वित्तीय निजी कॉरपोरेट क्षेत्र का दूसरा सबसे

बड़ा हिस्सा था और उसके बाद सरकारी क्षेत्र का हिस्सा अधिक था। 2014 में कुल जमाओं में गैर-वित्तीय निजी कॉरपोरेट क्षेत्र का हिस्सा घटा जिसका हिस्सा विदेशी क्षेत्र में बढ़ा।

11. 2008-2014 की अवधि में सभी संस्थागत क्षेत्रों की कुल जमाओं में मीयादी जमाओं का बड़ा हिस्सा था (सारणी 4)। सभी क्षेत्रों में बचत जमा दूसरा महत्वपूर्ण घटक था सिवाय गैर-वित्तीय निजी कॉरपोरेट एवं वित्तीय क्षेत्रों के, जिसमें चालू जमा दूसरा महत्वपूर्ण घटक था और बचत जमाओं का हिस्सा शून्य था।

सारणी 4: विभिन्न संस्थागत क्षेत्रों के अनुसार जमाराशियों की संरचना

(प्रतिशत)

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	जमाराशि प्रकार/क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी कॉरपोरेट क्षेत्र (गैर-वित्तीय)	वित्तीय क्षेत्र	हाउसहोल्ड क्षेत्र	विदेशी क्षेत्र	कुल
2008	चालू बचत मीयादी कुल	14.8 14.0 71.2 100.0	25.8 0.8 73.4 100.0	21.4 1.2 77.5 100.0	9.5 34.8 55.7 100.0	9.2 26.5 64.3 100.0	13.5 23.7 62.8 100.0
2010	चालू बचत मीयादी कुल	14.1 16.1 69.8 100.0	26.8 1.0 72.2 100.0	9.6 1.0 89.4 100.0	8.5 37.4 54.2 100.0	6.5 36.2 57.3 100.0	12.0 25.5 62.6 100.0
2012	चालू बचत मीयादी कुल	12.1 18.7 69.2 100.0	22.0 3.0 75.0 100.0	12.3 1.4 86.2 100.0	7.8 36.3 55.9 100.0	6.1 33.0 60.8 100.0	10.8 25.5 63.6 100.0
2013	चालू बचत मीयादी कुल	12.1 18.1 69.8 100.0	22.9 2.2 74.9 100.0	11.7 1.1 87.2 100.0	6.8 36.5 56.7 100.0	3.8 24.5 71.7 100.0	9.9 25.7 64.5 100.0
2014	चालू बचत मीयादी कुल	9.6 19.4 70.9 100.0	24.7 1.6 73.7 100.0	10.8 0.9 88.3 100.0	6.3 36.7 57.0 100.0	4.5 20.2 75.4 100.0	8.9 26.2 64.9 100.0

सारणी 5: जनसंख्या समूहों में जमाराशियों का विभाजन

(राशि ₹ बिलियन में; वृद्धि दर एवं हिस्सा प्रतिशत में)

जनसंख्या समूह/वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)		2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014
ग्रामीण	राशि (वृद्धि दर) {हिस्सा}	2,585 (10.8) {9.6}	3,010 (16.4) {9.1}	3,151 (4.7) {7.8}	4,270 (35.5) {8.8}	5,780 (16.3) {9.0}	6,757 (16.9) {9.5}	7,917 (17.2) {9.7}
अर्ध-शहरी	राशि (वृद्धि दर) {हिस्सा}	3,653 (18.8) {13.5}	4,328 (18.5) {13.0}	5,488 (26.8) {13.6}	6,307 (14.9) {13.0}	8,664 (17.2) {13.5}	10,132 (16.9) {14.2}	11,604 (14.5) {14.3}
शहरी	राशि (वृद्धि दर) {हिस्सा}	5,526 (20.8) {20.5}	6,829 (23.6) {20.6}	8,926 (30.7) {22.1}	9,833 (10.2) {20.3}	13,248 (16.1) {20.7}	15,388 (16.2) {21.5}	17,640 (14.6) {21.7}
महानगरीय	राशि (वृद्धि दर) {हिस्सा}	15,235 (31.0) {56.4}	19,020 (24.8) {57.3}	22,832 (20.0) {56.5}	27,954 (22.4) {57.8}	36,417 (14.1) {56.8}	39,189 (7.6) {54.8}	44,148 (12.7) {54.3}
अखिल भारत	राशि (वृद्धि दर) {हिस्सा}	26,999 (24.9) {100.0}	33,186 (22.9) {100.0}	40,397 (21.7) {100.0}	48,364 (19.7) {100.0}	64,110 (15.1) {100.0}	71,466 (11.5) {100.0}	81,310 (13.8) {100.0}

टिप्पणी: 2012 की वृद्धि दरें 2010 की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दरों (सीएजीआर) को दर्शाते हैं।

जनसंख्या समूहों⁵ में जमाओं के स्वामित्व का स्वरूप

12. जनसंख्या समूहों के आधार पर वर्गीकृत कुल जमाओं को सारणी 5 में प्रस्तुत किया गया है। जनसंख्या समूहों में जमाओं का वितरण दर्शाता है कि कुल जमाओं में महानगरीय शाखाओं का अधिकतम हिस्सा रहा। महानगरीय शाखाओं की जमाओं में हुई वृद्धि, जो 2012 और 2013 में लगातार घटी, 2014 में अंशतः बेहतर हई। इन शाखाओं का हिस्सा, अन्य जनसंख्या समूहों की जमाओं में उच्चतर वृद्धि के कारण, 2013 में घटकर 54.8 प्रतिशत रह गया, जो 2007-2012 के दौरान 56-58 प्रतिशत के आस-पास था, और यह 2014 में सीमांत रूप से घटकर 54.3 प्रतिशत रह गया।

13. सभी जनसंख्या समूहों में हाउसहोल्ड क्षेत्र का बैंक जमाओं में सर्वाधिक हिस्सा था। ग्रामीण शाखाओं की कुल जमाओं में हाउसहोल्ड क्षेत्र का 90 प्रतिशत हिस्सा था। कुल जमाओं में हाउसहोल्ड का हिस्सा अर्ध-शहरी (77.4 प्रतिशत), शहरी (67.6 प्रतिशत) एवं महानगरीय (46.5 प्रतिशत) क्षेत्रों में भी अधिक था। महानगरीय क्षेत्र में, अन्य योगदानकर्ताओं में सरकारी क्षेत्र (15.8 प्रतिशत), वित्तीय क्षेत्र (15.1 प्रतिशत) एवं गैर-वित्तीय

निजी कॉरपोरेट क्षेत्र (14.7 प्रतिशत) का योगदान भी उल्लेखनीय है (विस्तृत डेटा के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट <http://www.rbi.org.in/> देखें)।

14. जमाओं के प्रकारों में मीयादी जमाओं के बाद बचत जमाओं का 2014 में महानगरीय, शहरी एवं अर्ध-शहरी जनसंख्या समूहों में प्रभुत्व रहा (चार्ट 3)। 2014 में, मीयादी जमाओं में महानगरीय

चार्ट 3: खाता प्रकार के आधार पर जमाराशि संरचना -
जनसंख्या समूहों के अनुसार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)



⁵ बैंक सुविधायुक्त केंद्रों का जनसंख्या समूह वर्गीकरण जनगणना 2001 पर आधारित है।

सारणी 6: कुल जमाराशियों का बैंक समूह वार वितरण

(राशि ₹ बिलियन में; वृद्धि एवं हिस्सा प्रतिशत में)

बैंक समूह/वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)		2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहयोगी बैंक	राशि वृद्धि दर हिस्सा	6,071 (20.3) {22.5}	7,513 (23.8) {22.6}	10,020 (33.4) {24.8}	10,531 (5.1) {21.8}	13,598 (13.6) {21.2}	15,562 (14.4) {21.8}	17,417 (11.9) {21.4}
राष्ट्रीयकृत बैंक	राशि वृद्धि दर हिस्सा	12,843 (24.0) {47.6}	15,845 (23.4) {47.7}	19,116 (20.6) {47.3}	25,406 (32.9) {52.5}	34,233 (16.1) {53.4}	37,540 (9.7) {52.5}	42,818 (14.1) {52.7}
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि वृद्धि दर हिस्सा	817 (7.0) {3.0}	961 (17.6) {2.9}	1,186 (23.5) {2.9}	1,474 (24.2) {3.0}	1,839 (11.7) {2.9}	2,064 (12.2) {2.9}	2,343 (13.5) {2.9}
निजी क्षेत्र के बैंक	राशि वृद्धि दर हिस्सा	5,725 (33.6) {21.2}	6,960 (21.6) {21.0}	8,167 (17.3) {20.2}	8,550 (4.7) {17.7}	11,650 (16.7) {18.2}	13,465 (15.6) {18.8}	15,252 (13.3) {18.8}
विदेशी बैंक	राशि वृद्धि दर हिस्सा	1,543 (32.7) {5.7}	1,908 (23.7) {5.7}	1,907 (0.0) {4.7}	2,403 (26.0) {5.0}	2,780 (7.6) {4.3}	2,836 (2.0) {4.0}	3,480 (22.7) {4.3}
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	राशि वृद्धि दर हिस्सा	26,999 (24.9) {100.0}	33,186 (22.9) {100.0}	40,397 (21.7) {100.0}	48,364 (19.7) {100.0}	64,110 (15.1) {100.0}	71,466 (11.5) {100.0}	81,310 (13.8) {100.0}

टिप्पणी: निजी क्षेत्र के बैंकों में पुराने एवं नए निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। 2012 की वृद्धि दरों 2010 की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दरों (सीएजीआर) को दर्शाते हैं।

शाखाओं का हिस्सा 9.4 फीसदी बढ़कर 73.9 प्रतिशत हो गया जबकि बचत जमाओं के मामले में यह 9.6 फीसदी घटा। फिर भी, ग्रामीण शाखाओं द्वारा संचित जमाओं में बचत जमाओं का हिस्सा सर्वाधिक था और उसके बाद मीयादी जमाओं का हिस्सा अधिक था।

बैंक समूहों के अनुसार जमाओं के स्वामित्व का स्वरूप


15. बैंक समूह-वार विश्लेषण इंगित करता है कि कुल जमाओं में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (इसमें एसबीआई एवं उसके सहयोगी और राष्ट्रीयकृत बैंक सहित आईडीबाई बैंक शामिल हैं) का हिस्सा सर्वाधिक था, जो 2007 और 2014 के बीच 70.1-74.6 प्रतिशत के दायरे में था (सारणी 6)। विभिन्न वर्षों में घरेलू निजी क्षेत्र के बैंकों के पास 18-20 प्रतिशत की जमाराशियां थीं और विदेशी बैंकों का हिस्सा 4-5 प्रतिशत रहा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल जमाओं में लगभग 3 प्रतिशत का योगदान था।

16. जमाओं के प्रकार के अनुसार जमाओं का वितरण एसबीआई एवं उसके सहयोगियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों

में पूर्व के वर्षों की भाँति था, जिसमें मीयादी जमाओं का सर्वाधिक हिस्सा था और उसके बाद बचत जमाओं का (चार्ट 4)। विदेशी बैंकों के मामले में, कुल जमाओं में मीयादी जमाओं का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक था और इस क्रम में पांच में एक हिस्सा चालू जमाओं का था। आरआरबीज के मामले में, बचत जमाओं का कुल जमाओं में आधे से ज्यादा हिस्सा था और इस क्रम में पांच में दो हिस्सा मीयादी जमाओं का था।

17. 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार जमाओं का संस्थागत स्वामित्व दर्शाता है कि विदेशी बैंक समूह को छोड़कर, जिसमें विदेशी क्षेत्र का जमाओं के बाद गैर-वित्तीय निजी कॉरपोरेट क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा था, सभी बैंक समूहों में हाउसहोल्ड का कुल जमाओं में सर्वाधिक हिस्सा था (सारणी 7)।

18. विभिन्न संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा बैंक समूहों का चयन उनके कारोबार के साथ-साथ बैंकों की ग्राहकोन्मुख बिजनेस कार्यनीतियों के लिए अपेक्षित लचीलेपन पर आधारित लगता है। लगभग 90 प्रतिशत सरकारी जमाएं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास



थीं। वित्तीय क्षेत्र की लगभग 62 प्रतिशत जमाएं राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास थीं और उसके बाद 28 प्रतिशत निजी क्षेत्र के बैंकों के पास थीं। गैर-वित्तीय निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की 56 प्रतिशत से अधिक जमाएं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास थीं जबकि 43 प्रतिशत जमाएं विदेशी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के पास थीं। हाउसहोल्ड, विशेष रूप से व्यक्तियों की तीन-चौथाई से अधिक जमाएं सरकारी क्षेत्र के

बैंकों के पास थीं जो शायद इन बैंकों की शाखाओं के बड़े नेटवर्क के कारण थीं।

राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के अनुसार जमाओं का संस्थागत स्वामित्व^६

19. मार्च 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटीज़) में जमाओं की संरचना दर्शाता है

सारणी 7: बैंक समूह वार जमाराशियों के स्वामित्व का स्वरूप - 31 मार्च 2014

(राशि ₹ बिलियन में; हिस्सा प्रतिशत में)

क्षेत्र/बैंक समूह	एसबीआई एवं इसके सहयोगी बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक	आरआरबी	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	कुल
I. सरकारी क्षेत्र	3,324 (19.1)	6,965 (16.3)	153 (6.5)	847 (5.6)	113 (3.2)	11,402 (14.0)
II. निजी कॉरपोरेट क्षेत्र (गैर-वित्तीय)	1,336 (7.7)	3,203 (7.5)	10 (0.4)	2,376 (15.6)	1,140 (32.7)	8,065 (9.9)
III. वित्तीय क्षेत्र	410 (2.4)	4,910 (11.5)	21 (0.9)	2,216 (14.5)	372 (10.7)	7,928 (9.8)
IV. हाऊसहोल्ड क्षेत्र	11,092 (63.7)	26,910 (62.8)	2,154 (91.9)	7,748 (50.8)	664 (19.1)	48,567 (59.7)
V. विदेशी क्षेत्र	1,255 (7.2)	831 (1.9)	6 (0.2)	2,064 (13.5)	1,192 (34.3)	5,348 (6.6)
कुल जमाएं	17,417 (100.0)	42,818 (100.0)	2,343 (100.0)	15,252 (100.0)	3,480 (100.0)	81,310 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े हिस्सा दर्शाते हैं।

^६ मार्च 2013 का अधिक विस्तृत डेटा भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट 'URL: <http://www.rbi.org.in/>' पर उपलब्ध है।

कि सात राज्यों/यूटीज़ में इसका आधिक्य रहा। इन राज्यों/यूटीज़ (महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात) का कुल जमाओं में लगभग 68 प्रतिशत हिस्सा था। कुल जमाओं में केवल महाराष्ट्र का योगदान एक-चौथाई से अधिक था।

20. स्वामित्व के अनुसार, बैंक जमाओं में हाउसहोल्ड की बचतों का प्रभुत्व विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तर पर था। कुल जमाओं में संपूर्ण हाउसहोल्ड का हिस्सा केंद्रीय क्षेत्र में सर्वाधिक अर्थात् 75.9 प्रतिशत (समवर्ती राज्यों/यूटीज़ का हिस्सा 66 से 81 प्रतिशत के दायरे में था) था और इस क्रम में पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा 72.2 प्रतिशत (घटकों का हिस्सा 62 से 75 प्रतिशत के दायरे में था)

एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा 71.2 प्रतिशत (हिस्सा 65 से 77 प्रतिशत के बीच) था। कुल जमाओं में हाउसहोल्ड का हिस्सा उत्तरी क्षेत्र (63.4 प्रतिशत), दक्षिणी क्षेत्र (60.4 प्रतिशत) एवं पश्चिमी क्षेत्र (45.1 प्रतिशत) में निम्नतर था।

21. गैर-वित्तीय निजी कॉरपोरेट की कुल जमाओं में से 68.4 प्रतिशत चार राज्यों, नामतः, महाराष्ट्र (34.8 प्रतिशत), दिल्ली (14.1 प्रतिशत), तमिलनाडु (10.4 प्रतिशत) और कर्नाटक (9.1 प्रतिशत) में संकेतित है। एससीबीज द्वारा उगाही गई कुल विदेशी क्षेत्र जमाओं में महाराष्ट्र का योगदान 39.1 प्रतिशत था और इस क्रम में केरल का 17.1 प्रतिशत, दिल्ली का 8.3 प्रतिशत, कर्नाटक का 6.9 प्रतिशत और गुजरात का 5.9 प्रतिशत था।